

मइया लाल चुनरिया में

मइया लाल चुनरिया में ,
तूने मोह लिया जग सारा,
मइया दरसन से तेरे,
अब जागा भाग हमारा,
मइया लाल चुनरिया में,
तूने मोह लिया जग सारा....

मेरे मन में बसी मइया,
तूझे हरपल मैं ध्याऊँ,
तूझे हरपल मैं ध्याऊँ,
अब छोड़ तूझे मइया,
और कहाँ जाऊँ,
अब और कहाँ जाऊँ,
मइया अपने आँचल का,
दे दो मुझे सहारा,
मइया लाल चुनरिया में ,
तूने मोह लिया जग सारा,
मइया दरसन से तेरे,
अब जागा भाग हमारा....

मइया तेरे सिवा जग में,
कुछ और ना अब चाहूँ,
कुछ और ना अब चाहूँ,
टूटी फूटी बानी से,
बस गीत तेरे गाऊँ,
मैं गीत तेरे गाऊँ,
जयकार से तेरे मइया,
अब गूँज उठे जग सारा,
मइया लाल चुनरिया में,
तूने मोह लिया जग सारा,
मइया दरसन से तेरे,
अब जागा भाग हमारा.....

रचना: ज्योति नारायण पाठक
वाराणसी

<https://www.bhajanganga.com/bhajan/lyrics/id/3606/title/maiyan-lal-chunari-me-tune-moh-leya-jag-sara-maiyan-darshan-se-tere-ab-jaga-bhag-hamara->

अपने Android मोबाइल पर [BhajanGanga](#) App डाउनलोड करें और भजनों का आनंद ले |

